

प्रेस विज्ञप्ति थाना शाहपुर दिनांक 16-07-2021

पुलिस के ऊपर फायरिंग करने वाला शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल व गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर एवम् क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ की देखरेख में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर मय हमराहियान के मिलन चौक पर संदिग्ध व्यक्ति व अपराधियों की चेंकिंग कर रहे थे जहां से पादरी बाजार पहुंचे वहां पादरी बाजार चौकी प्रभारी व उनके हमराही पहले से मौजूद थे तभी कन्ट्रोल रूम द्वारा बताया गया कि चौकी प्रभारी कौवाबाग द्वारा 02 व्यक्ति जो काले रंग की पल्सर पर सवार हैं उन्हें रेलवे अण्डर पास पर रोकने का प्रयास किया गया तो रूके नहीं इस सूचना पर मुझ प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स तथा चौकी प्रभारी पादरी बाजार मय फोर्स द्वारा रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल सवार पिपराइच रोड की तरफ भागने लगे। मुझ प्रभारी निरीक्षक व हमराहीगण तथा उ0नि0 दीपक कुमार सिंह चौकी प्रभारी पादरी बाजार द्वारा अपने सरकारी वाहन से उक्त व्यक्तियों का पीछा करने लगे तभी पल्सर सवार व्यक्ति अचानक गाड़ी नन्दा नगर के तरफ मोड़ दी अब हम पुलिस वालो की गाड़ियों जैसे ही मोहनापुर रोड पर पहुंची तो हम पुलिस वालो के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे हम लोग बाल बाल बच गये और बदमाश भागने लगे। हम पुलिस वाले भी उनके गाड़ियों का पीछा करते हुये लाउडहेलर से बदमाशो को आत्मसमर्पण की चेतवानी देते हुये रूकने के लिये कहा गया अचानक उनकी गाड़ी धीमी होकर लड़खड़ा कर गिर गयी पीछे बैठा हुआ व्यक्ति गाड़ी से उतर कर झाड़ियों की तरफ भागने लगा तथा गाड़ी चला रहे बदमाश ने जान से मारने की नियत से हम पुलिस वालो पर फायर किया हम पुलिस वालो ने आत्मरक्षार्थ हेतु फायर किया जिसमें एक बदमाश घायल हो गया जिसका नाम सूरज साहनी पुत्र स्व0 जुगल किशोर निवासी सुभानअली बेलवा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर बताया जो दाहिने हाथ में एक अदद तमंचा 315 बोर लिये हुये था तथा उसके दाहिने पैंट की जेब से एक अदद पीली धातु की चेन लटक रही थी। उसने बताया कि ये चेन हमने शाम को नन्दा नगर में एक महिला से छीना था। जिसका अभियोग 300/21 धारा 392,411 भादवि, धारा 301/21 धारा 307 भादवि व धारा 302/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-

सूरज साहनी पुत्र स्व0 जुगल किशोर निवासी सुभानअली बेलवा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

बरामदगी माल

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 पीली धातु की चेन
5. 01 मोटरसाईकिल काले रंग की पल्सर

अभियुक्त सूरज साहनी का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 112/2021 धारा 41,411,419,420 भादवि थाना पिपराइच गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 113/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिपराइच गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 231/2019 धारा 354घ,504,506 भादवि व 67 ए आई0टी0 एक्ट थाना पिपराइच गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 – 300/2021 धारा – 392,411 भादवि थाना शाहपुर गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 – 301/2021 धारा – 307 भादवि थाना शाहपुर गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 – 302/2021 धारा - 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. आनन्द प्रकाश प्रभारी निरीक्षक शाहपुर गोरखपुर
2. उ०नि० दीपक कुमार सिंह चौकी प्रभारी पादरी बाजार थाना शाहपुर गोरखपुर
3. उ०नि०अशोक कुमार यादव चौकी प्रभारी झरना टोला गोरखपुर
4. हे०का० उदय प्रताप सिंह थाना शाहपुर गोरखपुर
5. का० आनन्द सिंह थाना शाहपुर गोरखपुर
6. का० सुनील यादव थाना शाहपुर गोरखपुर
7. का० उमेश यादव थाना शाहपुर गोरखपुर
8. का० अच्छेलाल भारती थाना शाहपुर गोरखपुर
9. का० शैलष यादव थाना शाहपुर गोरखपुर
10. जोगेन्द्र प्रसाद थाना शाहपुर गोरखपुर ।